

## छत्ता के बाजार में बन रहा नकली मोबिल ऑयल, 9 गिरफ्तार

Publish Date: Sun, 19 Jan 2020 03:30 PM (IST)



ब्रांडेड कंपनी की पैकेजिंग लगा नकली मोबिल ऑयल बन रहे थे। मौके से दो हुए फरार।

**आगरा, जागरण संवाददाता।** छत्ता थाने से 50 मीटर दूर विभिन्न कंपनियों का डुप्लीकेट मोबिल ऑयल बन रहा था। इसे कंपनियों के डिब्बों में पैक करने के बाद शहर और देहात के इलाकों में बेचा जा रहा था। रविवार को पुलिस ने नकली तेल के खेल का पर्दाफाश करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सरगना और उसके साझीदार समेत चार लोग मौके से भाग निकले।

पुलिस के पूछताछ करने पर आरोपितों ने बताया कि डुप्लीकेट मोबिल ऑयल बनाकर बेचने का काम जकी और उसके साथियों समीम व रिजवान की साझेदारी में चल रहा था। तीनों साझीदार कहीं से 23 हजार रुपये का ऑयल का कैंटर मंगाते थे।

एक कैंटर में पांच से दस हजार लीटर ऑयल आता है। इसे ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे में पैक करके बेचते थे। इसे दोगुनी कीमत पर बाजार में बेचते थे। यह कीमत ब्रांडेड कंपनी के माबिल ऑयल से काफी कम होती थी। नकली तेल के खेल का पर्दाफाश करके आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर सुनील दत्त, एसआइ राजकुमार, सर्वेश कुमार, गौरव कुमार आदि थे।

### बरामद माल

हीरो 4टी प्लस इंजन ऑयल 11 पेटी, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल 16 पेटी, होंडा इंजन ऑयल चार पेटी, टीवीएस इंजन ऑयल, नकली तीन ड्रम इंजन ऑयल करीब 500 लीटर, बरामद ऑयल के विभिन्न ब्रांड के खाली डिब्बे, इलेक्ट्रो सीलिंग मशीन, बॉल्टी, ढक्कन, सील, स्टीकर और एक लोडिंग टेंपो।

### ये हुए गिरफ्तार

जकी अहमद, मोहम्मद साहिल, अनीस, सलीम, मोहसिम, इरफान निवासी जीनखाना, काला महल छत्ता, आकाश सिंधी वाली गली छत्ता, सादिक निवासी नई आबादी पक्की सराय ताजगंज और इफाम निवासी गुलाब खाना छत्ता। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर चार फरार हो गए।

### कबाड़ियों से खरीदते थे विभिन्न ब्रांड के खाली डिब्बे

गिरफ्तार आरोपितों ने बताया कि विभिन्न कंपनी के ब्रांड के डिब्बे वह कबाड़ियों के यहां से खरीदते थे। कबाड़ी यह डिब्बे किलो के हिसाब से थोक में खरीदते हैं। जबकि वह कबाड़ कारोबारियों से पांच रुपये प्रति नग के हिसाब से डिब्बे खरीदते थे।

### ग्रामीण इलाकों में बेचते थे नकली माल

तेल के खेल में गिरफ्तार साझीदार जकी ने पुलिस को बताया कि वह अपना अधिकांश माल ग्रामीण इलाकों की दुकानों पर खपाते थे। गैराज वालों को डुप्लीकेट ऑयल में मुनाफा ज्यादा होने पर वह इसे आसानी से खरीद लेते थे।

**Source:** <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-police-caught-1100-litre-duplicate-mobil-oil-19950739.html>